



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 13, 2012/माघ 24, 1933

No. 236]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 13, 2012/MAGHA 24, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2012

का.आ. 266(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 368(अ), तारीख 14 फरवरी, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के पुर्णिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के 452.700 कि.मी. (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 का जंक्शन) पर जंक्शन का विकास करने के लिए भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 3 जून, 2011 को "हिन्दुस्तान" और "दि टाइम्स ऑफ इण्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के 452.700 कि.मी. (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 का जंक्शन) पर जंक्शन का विकास करने के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	पूर्निया	सिरीपुर	चौंचा (थाना नम्बर 399)	316	निजी	कृषि	1.100	सेख महम्मद सिदिक, पिता-सेख अब्दुल रहीम, गाँव-दौलतपुर
				317	निजी	गैर कृषि	0.240	सेख महम्मद सिदिक, पिता-सेख अब्दुल रहीम, गाँव-दौलतपुर
				318	निजी	कृषि	1.100	सेख समसुल हौदा, पिता-सेख महम्मद दानिस, गाँव-सलेमपुर एवं अन्य
				319	निजी	कृषि	0.350	सेख समसुल हौदा, पिता-सेख महम्मद दानिस, गाँव-सलेमपुर एवं अन्य
				806	निजी	कृषि	0.080	सेख हाजी भुराई, पिता-सेख नुराब अलि, गाँव-चौंचा
				807	निजी	कृषि	0.750	सेख महम्मद सिदिक, पिता-सेख अब्दुल रहीम, गाँव-दौलतपुर
				808	निजी	गैर कृषि	0.620	सेख दाउद, पिता-अब्दुल सुमान, गाँव-सलेमपुर
				809	निजी	कृषि	0.320	सेख समसुल हुदा, पिता-सेख महम्मद दानिस, गाँव-सलेमपुर एवं अन्य
				810	निजी	कृषि	0.130	सेख समसुल हुदा, पिता-सेख महम्मद दानिस, गाँव-सलेमपुर एवं अन्य
				811	निजी	कृषि	0.210	सेख समसुल हुदा, पिता-सेख महम्मद दानिस, गाँव-सलेमपुर एवं अन्य
				812	निजी	कृषि	0.120	सोहीम उद्दिन, पिता-सागर महम्मद, गाँव-सलेमपुर एवं अन्य
				813	निजी	कृषि	0.090	सोहीम उद्दिन, पिता-सागर महम्मद, गाँव-सलेमपुर एवं अन्य
				814	निजी	कृषि	0.170	सोहीम उद्दिन, पिता-सागर महम्मद, गाँव-सलेमपुर एवं अन्य
				815	निजी	कृषि	0.220	सोहीम उद्दिन, पिता-सागर महम्मद, गाँव-सलेमपुर एवं अन्य
				816	निजी	कृषि	0.330	सेख सागर महम्मद, पिता-इमाजुद्दिन, गाँव-सलेमपुर एवं अन्य
				817	निजी	कृषि	0.230	सेख सागर महम्मद, पिता-इमाजुद्दिन, गाँव-सलेमपुर एवं अन्य
				818	निजी	कृषि	0.190	सेख अब्दुल हकीम, पिता-सेख हसुद्दिन, गाँव-सलेमपुर एवं अन्य
				819	निजी	कृषि	0.030	सेख अब्दुल हकीम, पिता-सेख हसुद्दिन, गाँव-सलेमपुर एवं अन्य
				820	निजी	कृषि	0.160	सेख महम्मद आनिस, पिता-एनुद्दिन, गाँव-चौंचा एवं अन्य
				821	निजी	कृषि	0.400	सेख महम्मद हाजी भुराई, पिता-सेख तुराब अलि, गाँव-चौंचा
				822	निजी	कृषि	0.430	सेख महम्मद सिदिक, पिता-सेख अब्दुल रहीम, गाँव-दौलतपुर
				825	निजी	कृषि	0.450	सेख सागर महम्मद, पिता-इमाजुद्दिन, गाँव-सलेमपुर एवं अन्य
				824	निजी	कृषि	0.100	अ० समद बी अ० कादीर, पिता-वसारात मंडल, गाँव-सलेमपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				823	निजी	कृषि	0.210	अ० समद वी अ० कादीर, पिता-वसंतराव मंडल, गौव-सलेमपुर
				829	निजी	कृषि	0.170	सेख महम्मद हाजी भुराई, पिता-सेख तुराब अलि, गौव-चौचा
				830	निजी	कृषि	0.150	सेख महम्मद हाजी भुराई, पिता-सेख तुराब अलि, गौव-चौचा
				834	निजी	कृषि	0.050	सेख महम्मद हाजी भुराई, पिता-सेख तुराब अलि, गौव-चौचा
				833	निजी	कृषि	0.010	सेख अब्दुल हकीम, पिता-सेख हसुद्दिन, गौव-सिलेमपुर एवं अन्य
				831	निजी	कृषि	0.080	सेख समसुल हुदा, पिता-सेख महम्मद दानिस, गौव-सिलेमपुर एवं अन्य
				826	निजी	कृषि	0.060	अ० समद वी अ० कादीर, पिता-वसंतराव मंडल, गौव-सलेमपुर
				827	निजी	कृषि	0.110	अ० समद वी अ० कादीर, पिता-वसंतराव मंडल, गौव-सलेमपुर
				828	निजी	कृषि	0.110	सेख समसुल हुदा, पिता-सेख महम्मद दानिस, गौव-सिलेमपुर एवं अन्य

[फा. सं. भारराप्रा/बीओटी/पीआईयू-मालदा/भू.प्रा.-पूर्णिमा/2011]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2012

S.O. 266(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 368(E), dated the 14th February, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 34 on the stretch of land for junction development at km. 452.700 (Junction of NH-31 and NH-34) in District Purnia in the State of Bihar;

And whereas the substance of the said notification has been published in the "Hindustan" and "The Times of India", both dated the 3rd June, 2011, under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land for junction development at Km 452.700 (Junction of NH-31 and NH-34) of National Highway No. 34 in the State of Bihar.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in acres)	Name of the Interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Purnia	Siripur	Choncha (Thana No. 399)	316	Private	Agri	1.100	Sk. Mohammad Sidik, S/o Sk. Abdul Rahim, Vill-Daulatpur
				317	Private	Non-Agri	0.240	Sk. Mohammad Sidik, S/o Sk. Abdul Rahim, Vill-Daulatpur
				318	Private	Agri	1.100	Sk. Samsul Houda, S/o Sk. Mohammad Danis, Vill-Salempur and others
				319	Private	Agri	0.350	Sk. Samsul Houda, S/o Sk. Mohammad Danis, Vill-Salempur and others
				806	Private	Agri	0.080	Sk. Haji Bhurai, S/o Sk. Nurab Ali, Vill-Choncha
				807	Private	Agri	0.750	Sk. Mohammad Sidik, S/o Sk. Abdul Rahim, Vill-Daulatpur
				808	Private	Non-Agri	0.620	Sk. Daud, S/o Abdul Subhan, Vill-Silempur
				809	Private	Agri	0.320	Sk. Samsul Huda, S/o Sk. Mohammad Danis, Vill-Silampur and others
				810	Private	Agri	0.130	Sk. Samsul Huda, S/o Sk. Mohammad Danis, Vill-Silampur and others
				811	Private	Agri	0.210	Sk. Samsul Huda, S/o Sk. Mohammad Danis, Vill-Silampur and others
				812	Private	Agri	0.120	Sohim Uddin, S/o Sagar Mohammad, Vill-Salempur and others
				813	Private	Agri	0.090	Sohim Uddin, S/o Sagar Mohammad, Vill-Salempur and others
				814	Private	Agri	0.170	Sohim Uddin, S/o Sagar Mohammad, Vill-Salempur and others
				815	Private	Agri	0.220	Sohim Uddin, S/o Sagar Mohammad, Vill-Salempur and others
				816	Private	Agri	0.330	Sk. Sagar Mohammad, S/o Imajuddin, Vill-Salempur and others
				817	Private	Agri	0.230	Sk. Sagar Mohammad, S/o Imajuddin, Vill-Salempur and others
				818	Private	Agri	0.190	Sk. Abdul Hakim, S/o Hasuddin, Vill-Silempur and others
				819	Private	Agri	0.030	Sk. Abdul Hakim, S/o Hasuddin, Vill-Silempur and others
				820	Private	Agri	0.160	Sk. Mohammad Anis, S/o Enuddin Dissa, Vill-Choncha and others
				821	Private	Agri	0.400	Sk. Mohammad Haji Bhurai, S/o Sk. Turab Ali, Vill-Choncha
				822	Private	Agri	0.430	Sk. Mohammad Sidik, S/o Sk. Abdul Rahim, Vill-Daulatpur
				825	Private	Agri	0.450	Sk. Sagar Mohammad, S/o Imajuddin, Vill-Salempur and others
				824	Private	Agri	0.100	Abdul Samad & Abdul Kadir, S/o Basarat Mandal, Vill-Salempur
				823	Private	Agri	0.210	Abdul Samad & Abdul Kadir, S/o Basarat Mandal, Vill-Salempur
				829	Private	Agri	0.170	Sk. Mohammad Haji Bhurai, S/o Sk. Turab Ali, Vill-Choncha
				830	Private	Agri	0.150	Sk. Mohammad Haji Bhurai, S/o Sk. Turab Ali, Vill-Choncha
				834	Private	Agri	0.050	Sk. Mohammad Haji Bhurai, S/o Sk. Turab Ali, Vill-Choncha
				833	Private	Agri	0.010	Sk. Abdul Hakim, S/o Sk. Hasuddin, Vill-Silempur and others

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				831	Private	Agri	0.080	Sk. Samsul Huda, S/o Sk. Mahammad Danis, Vill-Salempur and others
				826	Private	Agri	0.060	Abdul Samad & Abdul Kadir, S/o Basarat Mandai, Vill-Salempur
				827	Private	Agri	0.110	Abdul Samad & Abdul Kadir, S/o Basarat Mandai, Vill-Salempur
				828	Private	Agri	0.110	Sk. Samsul Huda, S/o Sk. Mahammad Danis, Vill-Silampur and others

[F. No. NHA/BOT/PIU-Malda/LA-Purnia/2011]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

460 9812-2